

प्रेस नोट

थाना हसायन पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण कर हत्याभियुक्तों को किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल एवं दो मोबाइल फोन बरामद-

दिनांक 03.01.2021 को थाना हसायन क्षेत्र के ग्राम बस्तोई में एक खेत की मेड के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। मौके पर फोरेन्सिक टीम एवं सर्विलांस टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। शव की शिनाख्त महाराज सिंह उर्फ छोटेलाल पुत्र खैम सिंह निवासी कनकपुर थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना हसायन पर मृतक के परिजनों द्वारा शक के आधार पर बाईस्तवा अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पजीकृत कराया गया था। मृतक के शव के पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्ट्रेन्गुलेशन (गला दबाकर कर हत्या) आया।

घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री विनीत जायसवाल द्वारा क्षेत्राधिकारी सिकन्दराराऊ के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। जिनके अथक प्रयासोपरान्त थाना हसायन पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए तीन अभियुक्त अरविन्द कुमार, दलवीर उर्फ बाबू व श्रीमती सुधा को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल व दो मोबाइल बरामद किये गये हैं। अभियुक्त गण की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हसायन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: - गिरफ्तार अभियुक्त अरविन्द से पूछताछ किये जाने पर उसके द्वारा मृतक की हत्या किया जाना स्वीकार करते हुए बताया कि मेरे व मृतक महाराज उर्फ छोटेलाल की पत्नी से प्रेम सम्बंध थे। जिसकी जानकारी मृतक को लग गयी थी। मैंने अपने दोस्त दलवीर उर्फ बाबू को पैसों का लालच देकर मृतक महाराज सिंह उर्फ छोटे को रास्ते से हटाने के लिये योजना बनायी। दिनांक 02.01.2021 की रात जब मृतक महाराज सिंह अपने गांव बस्तोई में खेत में बैठा था तभी अभियुक्तों द्वारा गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरविन्द कुमार पुत्र बैनीराम निवासी गांगरौल थाना विजयगढ़ जनपद अलीगढ़।
2. दलवीर उर्फ बाबू पुत्र रामबाबू निवासी नगला ढक मजरा गांगरौल थाना विजयगढ़ जनपद अलीगढ़।
3. श्रीमती सुधा कुमारी पत्नी महाराज सिंह उर्फ छोटेलाल निवासी कनकपुर थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़।

बरामदगी-

1. मोटर साईकिल CT 100 नं0 UP 82Y 3489 (घटना में प्रयुक्त)
2. दो मोबाइल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. SO श्री मृदुल कुमार सिंह थाना हसायन
2. उ0नि0 हरीशचन्द्र थाना हसायन
3. उ0नि0 सत्मान सिंह थाना हसायन
4. हे0का0 301 भीमसैन थाना हसायन
5. हे0का0 473 योगेन्द्र सिंह थाना हसायन
6. का0 841 राहुल कुमार थाना हसायन

PRO CELL HATHRAS